



SS/F002/6.2/R0  
**SIMBHAOLI  
SUGARS**

**Simbhaoli Sugars Limited**  
CIN-L15122UP2011PLC044210

Regd. Office :

Simbhaoli - 245 207, Distt. Hapur U.P. (INDIA)

Tel : (05731) 223117, 223118, 223023

Fax: (05731) 223039, 223262

E-mail : info@simbhaolisugars.com

www.simbhaolisugars.com

Ref: SSL/Stock Exchange/2022  
November 16, 2022

**BSE Limited**  
**Phiroze Jeejeebhoy Towers**  
**Dalal Street, Fort Mumbai**  
**Fax No. 022-22721072/2037/2041**

**The National Stock Exchange of India Limited**  
**Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex,**  
**Mumbai- 400051**  
**Fax No, 022-26598237/38**

**Ref: Scrip Code: BSE - 539742; NSE-SIMBHALS**  
**Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulation, 2015**  
**Unaudited Financial Results - News Paper Clippings**

Dear Sir,

The unaudited financial results for quarter/half year ended on September 30, 2022, as approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on November 14, 2022, were published in Business Standard (English & Hindi) in the edition on November 15, 2022 & November 16, 2022, respectively. Newspaper clippings are enclosed.

Please take the above information on records.

Thanking You  
Yours faithfully,  
For Simbhaoli Sugars Limited

  
Kamal Samtani  
(Company Secretary) \*  
M.No.- 5140

Specialty Sugars

Potable Alcohol

Ethanol

Power

(AN ISO 9001 ; 14001 & FSSC 22000 CERTIFIED COMPANY)  
GSTIN No. : 09AAPCS7569A1ZV & PAN No. : AAPCS7569A  
Tel. : 0120-2427155 Fax : 0120-2427166



**PUBLIC NOTICE**  
Public is hereby informed that Sh. Yogender Kumar Sharma has claimed to be the owner of HOUSE NO.232 (BACK PORTION) AREA MEASURING 46.5 SQ. YDS., OUT OF KHASRA NO.482MI, SITUATED AT VILLAGE MIRZAPUR, MATA COLONY, SECTOR-12, VIJAY NAGAR, TEHSIL & DISTT. GHAZIABAD, UP and Now Sh. Anil Mohan has approached Raigang Housing Development Finance Corporation Ltd. for loan against mortgage of above said property, if any person has any right, claim, title or interest in any manner over the said property then intimate within 7 days to Vikas Shokeen, Advocate, A-18, Mianwali Nagar, Delhi -110087. Thereafter any kind of claim will not be accepted.

**VINTRON INFORMATICS LIMITED**

CIN: L72100DL1991PLC045276  
Registered Office: D-107 & 108, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020  
Phone: EPABX - 43740000; Fax: +91-11-43740040  
Website: www.vintroninformatic.com; Email: vil\_vintron@hotmail.com

**EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE SECOND QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30<sup>TH</sup> SEPTEMBER 2022**

PARTICULARS	(Rs. In Lakhs)					
	FOR THE QUARTER ENDED			FOR THE HALF YEAR ENDED		
	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022
Total Income from Operations (Net)	588.07	817.63	432.45	1,405.70	611.47	1,718.82
Net Profit / (Loss) before exceptional / extraordinary items and tax	91.49	17.98	(40.56)	109.47	(107.10)	(92.94)
Net Profit / (Loss) after exceptional / extraordinary items and tax	91.49	17.98	(128.71)	109.47	(195.25)	(181.09)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	91.49	17.98	(128.71)	109.47	(195.25)	(181.34)
Equity Share Capital	783.66	783.66	783.66	783.66	783.66	783.66
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the Previous Year)	-	-	-	-	-	(1,940.07)
Earning Per Share (before extraordinary items) (of Re.1/- each)						
Basic:	0.12	0.02	(0.05)	0.14	(0.14)	(0.12)
Diluted:	0.12	0.02	(0.05)	0.14	(0.14)	(0.12)
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Re.1/- each)						
Basic:	0.12	0.02	(0.16)	0.14	(0.25)	(0.23)
Diluted:	0.12	0.02	(0.16)	0.14	(0.25)	(0.23)

**NOTES:**  
1 The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and the same have been approved by the Board of Directors at its meeting held on 14<sup>th</sup> November, 2022 in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.  
2 Previous period's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.  
3 The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Half Yearly Unaudited Standalone Financial Results filed with the Stock Exchange/s under the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com / www.dseindia.org.in / www.cse-india.com) and on the Company's website (www.vintroninformatic.com)

For and on behalf of the Board  
**VINTRON INFORMATICS LIMITED**  
Sd/-  
**(ARVIND SHARMA)**  
Managing Director  
DIN: 00012177

Place : New Delhi  
Date : 14.11.2022

**GENOSS COMPANY LIMITED, Korea**

**PUBLIC NOTICE**  
To Whom It May Concern,

We, Genoss Co., Ltd. Located at 1F Gyeonggi R&D Center/ 226, 2F. GSBG, 105, Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea, as the manufacturer of medical products, hereby authorize Riessa Enterprises Inc, a proprietary firm incorporated under the laws of India, having its registered office at C-2802, Lodha Bellissimo, NM Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai-400011, as "EXCLUSIVE DISTRIBUTOR" of our product under brand GENOSS in the territory of India from 1st May, 2022 for our products; MONALISA Derma Fillers Lidocaine and Non-Lidocaine.

The public is hereby suggested not to deal with any other persons posing to be distributors of Genoss Co. Ltd. Except for business with the official "EXCLUSIVE DISTRIBUTOR" authorized by Genoss Co. Ltd. all responsibility for the illegal products lies with you and Genoss Co. Ltd. and Riessa Enterprises Inc shall not be liable for any loss or damage caused to them. Should any one encounter or become aware of such unauthorized persons purporting to be distributors of Genoss Co. Ltd. in India, please notify us at the address given below to curb such unauthorized activities.

We authenticate that we shall take responsibility of this confirmation letter.

If institution asks us any documents for verification or registration, we are willing to support any information which are required.

Sincerely,  
**Genoss Co., Ltd.**  
Sung Min Chung  
President of Genoss  
14<sup>th</sup> November, 2022

GENOSS COMPANY LIMITED  
1F, Gyeonggi R&D Center,  
105 Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu,  
Suwon-si, Gyeonggi-do - 16229 Korea  
Phone +82-31-888-5100.  
Fax +82-31-888-5136  
www.genoss.com  
E-mail: jwnam@genoss.com

**LADAM AFFORDABLE HOUSING LIMITED**

CIN: L65990MH1979PLC021923  
Regd Office: Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604. Tel No. 022 71191000  
Email ID: compliances@ladam.in Website: www.ladamaffordablehousing.com

**Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2022**

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated			Amt in Lakhs
		For the quarter ended 30/09/2022	Previous Year ended figure 31/03/2022	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2021	For the quarter ended 30/09/2022	Previous Year ended figure 31/03/2022	Corresponding 3 months ended in the previous year 30/09/2021	
		(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)	
1	Total Income from Operations	2.41	3.07	0.37	8.52	557.70	99.95	
2	Net Profit/(Loss) for the period (Before tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	-2.81	-21.74	-6.77	-1.57	82.19	-5.65	
3	Net Profit/(Loss) for the period Before tax (After Exceptional and/or Extraordinary items#)	-2.81	-21.74	-6.77	-1.57	82.19	-5.65	
4	Net Profit / (Loss) for the period After tax (After Exceptional and/or Extraordinary items#)	-2.81	-21.74	-6.77	-1.57	55.90	-5.65	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-2.98	-19.87	-6.91	(1.74)	57.76	-5.79	
6	Equity Share Capital	915.23	915.23	915.23	915.23	915.23	915.23	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in Audited Balancesheet of the previous year	-	1,384.41	-	-	1,865.10	-	
8	Earnings Per Share (of Rs. 5- each) (for continuing and discontinued operations) -							
	Basic:	-0.02	-0.12	-0.04	-0.01	0.12	-0.03	
	Diluted:	-0.02	-0.12	-0.04	-0.01	0.12	-0.03	

**Notes:**  
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) website www.bseindia.com and on the Company's website www.ladamaffordablehousing.com  
b) The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.  
c) # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules /AS Rules, whichever is applicable

For Ladam Affordable Housing Limited  
Sd/-  
**Sumesh Agarwal**  
Director  
DIN : 00325063

Date: 12/11/2022  
Place : Thane

**NDA SECURITIES LIMITED**

CIN: L74899DL1992C050366  
Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019  
Phone: 91-46204000, Fax: 91-11-46204050, Email: info@ndaindia.com, Website: www.ndaindia.com

**Statement of Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended Sep 30, 2022**

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2021	31.03.2022	
	Unaudited			Audited			Unaudited			Audited		
Total Income	141.39	205.13	308.56	380.68	802.50	141.59	205.37	308.95	381.10	803.38		
Net Profit Before Tax	1.95	23.79	14.68	40.10	86.09	1.24	22.56	13.21	37.95	82.21		
Net Profit After Tax	-1.59	23.77	7.83	40.16	77.89	-2.29	22.54	6.39	38.01	74.01		
Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	-8.06	0.67	-9.45	0.80	7.50	-8.06	0.67	-9.45	0.80	7.50		
Total Comprehensive income	-9.65	24.44	-1.62	40.96	85.39	-10.35	23.21	-3.06	38.81	81.51		
Paid up Equity Share Capital (FV 10/-)	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22	509.22		
Other Equity					319.31					289.89		
Earning Per Share in Rupees (Per Share of Rs. 10/- each Basic and Diluted)	-0.19	0.48	-0.03	0.80	1.68	-0.20	0.46	-0.06	0.76	1.60		

**Note:** The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock exchange website (www.bseindia.com) and Company's Website (www.ndaindia.com)

For and on behalf of the Board of Directors  
for **NDA Securities Limited**  
Sd/-  
**Sanjay Agarwal**  
(Managing Director)  
DIN : 00010639

Place : New Delhi  
Date : 14.11.2022

**Edelweiss ECL Finance Ltd.**

**ECL FINANCE LIMITED**  
Registered Office: Tower 3, Wing 'B', Kohnoor City Mall, Kohnoor City, Kirul Road, Kuria (West), Mumbai - 400070, Maharashtra

**DEMAND NOTICE**  
Under Section 13(2) of the Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The undersigned is the Authorized Officer of ECL Finance Limited (ECL) under Securitization And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Authorized Officer has issued Demand Notices dated 09-11-2022 under section 13(2) of the said Act, calling upon the following Borrower(s)/ Co-borrowers/Guarantors/mortgagors (the "said Borrower(s)"), to repay the amounts mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them that are also given below, the account of the Borrower(s) (the "said Borrower(s)") was rendered NPA on 04-11-2022. In connection with above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s) to pay to ECL, within 60 days from the publication of this Notice, the amounts indicated herein below, together with further interest as detailed in the said Demand Notice(s), from the date(s) mentioned below till the date of payment and/or realization, payable under the Loan Agreement read with other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the Loan, the following Assets have been mortgaged to ECL by the said Borrower(s) respectively.

Name of Borrower(s)/ Co-Borrower(s)	Demand Notice date and amount	Description of secured asset (Immovable Property)
(Loan A/c No: LDELSSE000040154)	09.11.2022 of Rs.	All that the free hold built up property bearing No. 409, land measuring 300 sq. yds., shown in the layout plan of Delhi Sainik C.H.S.S. Ltd. in the area of VIII, Salimpur Mairia, Madipur, Delhi State, Delhi, popularly known as SAINIK VIHAR, Pitampura, Delhi-110034 with the free hold rights of the land underneath said property; of thereabout Bounded as under:- At or towards the North - Road 45th, wide, At or towards the South - 15th Service Road, At or towards the East - Plot No. 408, At Or Towards The West - Plot No. 410 (More Particularly Described in Reconveyance Deed Dated 03.05.2011 Duly Registered As Reg No 5137/2011-12 At Sub Registrar Vi-A, New Delhi/delhi)
1. Sidhartha Educational And Welfare Society (Borrower)	12,43,78,835.16/- (Rupees Twelve Crores Forty Three Lakhs Seventy Eight Thousand Eight Hundred Thirty Five and Sixteen Paise Only)	
2. Mahender Singh Rana Alias M.S. Mohinder Singh Rana Alias M.S. Rana (Co-Borrower)	Crores Forty Three Lakhs Seventy Eight Thousand Eight Hundred Thirty Five and Sixteen Paise Only	
3. Sakaar Education Trust (Co - Borrower)	Eight Hundred Thirty Five and Sixteen Paise Only	
4. The Educational Initiatives Pvt Ltd (Co-Borrower)	due on 08th November 2022.	
5. Amit Rana (Co-Borrower)		
6. Sheetal Rana (Co-Borrower)		

If the said Borrowers shall fail to make payment to ECL as previously mentioned, ECL shall proceed against the above-secured assets under Section 13(4) of the Act and the applicable Rules, entirely at the risks of the said Borrowers as to the costs and consequences. The said Borrowers are prohibited under the Act from transferring the previously mentioned assets, whether by way of Sale, Lease or otherwise without the prior written consent of ECL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the said Act or Rules made there under, shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act.  
Place : Delhi (NCR)  
Date : 15.11.2022  
Sd/- (Authorized Officer)  
For ECL Finance Limited

**bagla HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED**

CIN:L74899DL1988PL031191  
Reg. Office: B-2/8 Safdarjung Enclave, Delhi -110029  
Tel 41650347 Email ID: info@bagla-group.com, website: www.bagla-group.com

**Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30, September, 2022**

PARTICULARS	Quarter ended		Half Year ended		31-03-22
	30-09-22	30-06-22	30-09-21	30-09-21	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
1 Total Income from operations (net)	7,385	11,993	10,537	19,378	19,039
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	238	427	295	665	699
3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	238	427	295	665	699
4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	184	308	194	492	491
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	184	308	194	492	491
6 Equity Share Capital	512	512	512	512	512
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year	-	-	-	-	2,420
8 Earnings per share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinued operations):					
(a) Basic	3.59	6.02	3.79	9.61	9.59
(b) Diluted	3.59	6.02	3.79	9.61	9.59

**Note:**  
1 The above unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 14.11.2022 and the Statutory Auditor of the Company has issued their Limited Review Report on the same.  
2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Metropolitan Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Metropolitan Stock Exchange website Stock Exchange websites, namely The Bombay Stock Exchange Limited - www.bseindia.com, The Calcutta Stock Exchange - www.cse-india.com and the Company's website - www.bagla-group.com.

For & on behalf of the Board  
**Hindustan Adhesives limited**  
Sd/-  
**(Amit Kumar)**  
Director  
DIN- 06902856

Place : Delhi  
Date : 14.11.2022

**SIMBHAOLI SUGARS LIMITED**  
(Formerly known as 'Simbhaoli Spirits Limited')  
Regd. Office : Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.) - 245207  
CIN - L15122UP2011PLC044210  
E-mail: info@simbhaolisugars.com Website: www.simbhaolisugars.com

**EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2022**

S. No.	Particulars	(Rs. Lacs)					
		Quarter ended		Six Months ended		Year ended	
		September 30, 2022	June 30, 2022	September 30, 2021	September 30, 2021		March 31, 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	23,684.38	30,272.71	22,376.36	53,957.09	53,904.42	114,896.23
2	Net Profit/(loss) for the period before Tax and exceptional items	(4,011.47)	(1,636.22)	(2,456.24)	(5,647.69)	(2,926.16)	(882.16)
3	Net Profit/(loss) for the period before Tax and after exceptional items	(4,011.47)	(1,636.22)	(2,456.24)	(5,647.69)	(2,926.16)	(2,122.11)
4	Net Profit/(loss) for the period after Tax and exceptional items	(4,011.80)	(1,638.33)	(2,449.44)	(5,650.13)	(2,915.31)	(2,244.23)
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising net profit/(loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(4,011.80)	(1,638.33)	(2,449.44)	(5,650.13)	(2,915.31)	(2,151.72)
6	Paid up equity share capital (face value Rs.10/- each)	4,127.90	4,127.90	4,127.90	4,127.90	4,127.90	4,127.90
7	Other Equity						(11,053.15)
8	- EPS before exceptional item	(9.72)	(3.97)	(5.93)	(13.69)	(7.06)	(2.43)
	- EPS after exceptional item	(9.72)	(3.97)	(5.93)	(13.69)	(7.06)	(5.44)

# Refer Note no. 11  
**Notes :**

1 The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended on September 30, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results for the quarter and half year ended on September 30, 2022 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.simbhaolisugars.com).  
2 For the half year ended on September 30, 2022 and in previous years, due to higher raw material cost i.e. sugarcane costs (SAP) fixed by State government and relatively lower sales realization of finished sugar, adverse demand & supply scenario, national - international market dynamics and other external factors, the Company had continuously incurred huge cash losses resulting in complete erosion of its net worth, rendering the Company unable to meet payment obligations towards its lenders as well as to the sugarcane farmers in terms of their respective agreements and understanding. All the production units of the Company are operational and continue to operate at sub-optimum levels on year on year basis while consistent efforts have been made for improvement in operational efficiency viz. improvement in sugar recovery, reduction in overheads and reduction in other operational and administrative costs etc. but due to lack of required working capital and no capex being undertaken towards augmentation of distillery units/sugar plants is still adversely impacting the operations. During the half year and quarter ended on September 30,2022, the Company has completed crushing for Sugar season 2021-22 in all of its three sugar mills while comprehensive annual maintenance being undertaken to commence production operations for ensuing crushing season 2022-23. However, availability of required sugarcane for optimal utilization of production capacities is still a challenge on account of aforesaid reasons. In distillery segment, non-commissioning of incineration boilers and other equipments to meet the stringent requirement of Pollution control board, is still resulting in curtailed production levels. Further, The Company also expects to receive accrued benefits under the Sugar Industries Promotion Policy 2004 for which it is entitled, but presently, the matter is sub-judice.  
Recognizing the status of the sugar industry, the state and central governments have taken a number of measures in part to improve the financial health of sugar mills and to support the liquidation of sugarcane arrears by grant of soft loan, fixing minimum support price of sugar, and Ethanol blending program with petrol coupled with long term tendering and fixing remunerative selling price of ethanol etc. All these measures specifically ethanol blending programme, have resulted in revival of the sugar industry. The Company is continuing to suffer and incurring losses on account of non-availability of sufficient sugarcane commensurate to its crushing capacities, on account of delayed payment of sugarcane prices due to adverse liquidity position, which have resulted in the diversion of sugarcane in the command areas to the other adjoining sugar mills. Benefits under soft loan could also not be availed, since credit facility accounts with its lenders were having NPA categorization.  
3 Due to default in repayment of credit facilities, lenders to the Company have initiated recovery proceedings at various forums, including filing of applications before the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and also filing of recovery proceedings against personal guarantors (Promoters) before NCLT under section 95 of Insolvency and Bankruptcy Code,2016 in addition to approaching Debt Recovery Tribunals in Delhi as well as in Lucknow, Uttar Pradesh. One of the lenders had declared the Company and Guarantors to the credit facility, as Willful Defaulters, such impugned order of lender was Set Aside by Hon'ble Punjab and Haryana High court at Chandigarh, while another lender had started the proceedings to examine the Willful Default and a personal hearing was also granted, basis Company's representations the decision is kept in Abeyance. One lender has categorized the Company with Fraud tag and same is challenged before Delhi High Court. While one of the lenders had initiated recovery proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act, wherein non-bailable warrants were issued against the erstwhile directors and officials of the Company, which is being contested at the appropriate forum. Against a criminal complaint filed by one of the lenders, the Enforcement Directorate had passed an Attachment Order on certain assets of the Company to the extent of Rs. 109.80 Crore, against which



ABN INTERCORP LIMITED				
Reg. Office : FF-01, TDI Center, Jasola District Center, Jasola, New Delhi - 110025 Ph:011-4324180 Email:abn.india@gmail.com CIN:L55101DL2005PLC140406				
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR HALF YEAR ENDED ON 30 <sup>th</sup> SEPTEMBER, 2022				
(In Lakhs except EPS data)				
Sr. No.	Particulars	Half Year ended 30/09/2022 (Unaudited)	Half Year ended 30/09/2021 (Unaudited)	Half Year ended 30/09/2021 (Unaudited)
1	Total Income From Operation	12.33	7.66	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax exceptional items and/or extraordinary items)	2.39	(1.93)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after exceptional items and / or extraordinary items)	2.39	(1.93)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items and / or extraordinary items)	2.39	(1.93)	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	2.39	(1.93)	
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/-each)	41.95	41.95	
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve).	-	-	
8	Earning Per Share (EPS) (Of Rs. 10/- Each) (for continuing and discontinued operations) not annualised	0.57	(0.46)	
	(a) Basic	0.57	(0.46)	
	(b) Diluted	0.57	(0.46)	

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Half Yearly Financial Results are available on the website of the stock exchange. website : www.nseindia.com. 2. The Company is engaged in the service segment and therefore there are no other reportable segments.

DATE : 14.11.2022 Mr. Ajal Kumar Rastogi  
PLACE : NEW DELHI Managing Director DIN : 00322447

**शुद्धि पत्र**

ई-नोलामी विक्री सूचना के अधीन दिनांक 18.10.2022 को प्रकाशित हमारे विज्ञापन में। कर्जदार का नाम [मिसर्स सिद्धि रिफॉर्मायर्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.] स्वत्वाधिकारी के नाम को सम्पत्ति सं. 1 "सिद्धि विनायक इंडस्ट्रीज प्रा.लि." के स्वत्वाधिकारी के नाम के स्थान पर सम्पत्ति सं. 1 के "गणेश मल्टीप्लेक्स प्रा.लि." के रूप में पढ़ें तथा सम्पत्ति सं. 2 "गणेश मल्टीप्लेक्स प्रा.लि." के स्वत्वाधिकारी के नाम के स्थान पर सम्पत्ति सं. 1 के "सिद्धि विनायक इंडस्ट्रीज प्रा.लि." के रूप में पढ़ें। पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। असुविधा के लिए खेद है।

**PUBLIC NOTICE**

Subject: Transfer/ Mutation of ownership in respect of Flat bearing no. S-206 Sispal Vihar, Awho, Sector 49 Gurgaon-122001, Haryana, consequently upon the death of Mrs. Saroj Bala Sahrawat W/o Late Lt. Col. Balbir Singh Sahrawat.

Mrs. Saroj Bala Sahrawat W/o Late Lt. Col. Balbir Singh Sahrawat who was the owner as per records of the subject cited property has died on 9 TH JUNE 2021 and has registered Will dated 27 Th December 2011. Mrs. Aditi Sahrawat (Daughter in law), W/O Mr. Dalbir Singh Sahrawat, R/O Flat no 6A, Block GH6, Orchid Gardens, Suncity, Sector 54, Gurgaon Haryana 122001, by virtue of registered Will dated 27 Th Dec 2011 intends to apply for the transfer/ mutation of the said property in her favour being the legal heir and request for transfer/ mutation in the name of Aditi Sahrawat.

If any person is having any objection against the transfer of the said flat, he/she can submit objections in writing to Office of Municipal Corporation Of Gurgaon (MCG) along with supporting documents within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the Office of MCG may accord permission to transfer of the said property as per MCG policy and may not entertain subsequent claim, if any.

Place Gurgaon. Sd/-  
Date 16/11/2022. Aditi Sahrawat

**परिशिष्ट IV**  
देखें नियम 8(1)  
कच्चा सूचना  
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,  
इंडियावैल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोस्तहरी ने सिन्धोराइजेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ फायनान्सियल असैस एंड एफ्लोसिमेंट ऑफ सिन्धोरोटी इंड्रेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिन्धोरोटी इंड्रेस्ट (एफ्लोसिमेंट) रूयस, 2002 के साथ पढ़ें हुए प्राण अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार प्रतीक बख्शी, अनिल बख्शी और आरती बख्शी को 22.09.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLRHN00182121 को रद्द कर रू. 16,16,041.38 /- (रुपए सोलह लाख सोलह हजार इकतालीस और अठ्ठावीस पैसे मात्र) 28.06.2021 के अनुसार उस पर ब्याज के साथ इंडियावैल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सम्बंधित जनात को सूचना दी जाती है कि, अधोस्तहरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिन्धोरोटी इंड्रेस्ट (एफ्लोसिमेंट) रूयस, 2002 के तहत प्राण अधिकारों का कार्यान्वयन करके 11.11.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 16,16,041.38 /- (रुपए सोलह लाख सोलह हजार इकतालीस और अठ्ठावीस पैसे मात्र) 28.06.2021 के अनुसार उस पर ब्याज के साथ इंडियावैल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के अधीन होगा।

उपरोक्तों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अंतर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

यूनिट नं.0504, 5वां मंजिल, टॉवर -टी10, श्री राधा स्कॉई गार्डन्स, प्लॉट नं.जीएच 05, सेक्टर 16बी, जीआर नोएडा (नोएडा एक्सटेंशन), नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश सही/-  
दिनांक : 11.11.2022 प्राधिकृत अधिकारी  
स्थान : नोएडा इंडियावैल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

MACHINO PLASTICS LTD.				
पंजी. कार्यालय: प्लॉट # 3, मारुति ज्वाइट वैचर कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-गुरुग्राम रोड, गुरुग्राम हरियाणा-122015				
फोन:-2341-2341218 2344086, फैक्स: 0124-2344062, ई-मेल: admin@machino.com, वेबसाइट: www.machino.com CIN: L25209HR2003PLC035034				
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही (अनंकेषित)	समाप्त छमाही (अनंकेषित)	समाप्त तिमाही (अनंकेषित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	8,055.16	16,933.05	6,729.17
2	कर से पहले शुद्ध लाभ	33.69	154.00	(26.94)
3	करों के बाद शुद्ध लाभ और असाधारण मदें	0.76	104.63	(25.09)
4	कुल समाप्त आय (कर के बाद)	0.76	104.63	(25.09)
5	सकता इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	613.68	613.68	613.68
6	पूर्व वर्ष के लेखा परीक्षण तुलन पत्र के अनुसार आरक्षित मूल्यांकन को छोड़कर आरक्षण	-	3,319.13	-
7	अर्जन प्रति शेयर (इपीएस) (रु.) बेसिक इपीएस (रु.) (बी) डायल्टिड इपीएस (रु.) (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	0.01	1.70	(0.41)
8	अर्जन प्रति शेयर (इपीएस) असाधारण मदों के बाद (रु.) बेसिक इपीएस (रु.) (बी) डायल्टिड इपीएस (रु.) (रु. 10/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)	0.01	1.70	(0.41)

\*31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के लिए आरक्षित मूल्यांकन को छोड़कर आरक्षण रु. 3,803.41 लाख था। नोट:

1. 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उक्त अनंकेषित वित्तीय परिणामों की अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 14 नवंबर, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा रिपोर्ट में लिया गया है। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने उपरोक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

2. उक्त सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकीर्णक आधारकारी) विनियम, 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनंकेषित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.machino.com) पर भी उपलब्ध है।

3. कुछ सामान्य एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि हमारे पार्टनर और मुख्य हार्डवेयर एम्प्लॉयमेंट का गुरुग्राम प्लॉट से अन्य साइट पर स्थानांतरण की संभावना है। हमारा व्यापार एम्प्लॉयमेंट के ऐसे एकाग्र से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट के स्थानांतरण के संभावित निष्पत्तियों से जुड़े प्रचालनात्मक व वित्तीय जोखिम के मूल्यांकन को देखते हुए, प्रबंधन संभावित जोखिमों को कम करने का हर संभव प्रयास कर रही है।

बोर्ड के आदेशानुसार  
मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड के लिए  
हस्ता./- आदित्य ज़िंदल  
अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक

स्थान : गुरुग्राम  
दिनांक : 14 नवंबर, 2022

आईटीएल फिनलीज एंड सिक्यूरिटीज लिमिटेड					
पंजीकृत कार्यालय: 01-06, जीडी-आर्टिस्ट टॉवर, टॉप फ्लोर, नेहाजी नुबरा चौरा, पीतापुर, दिल्ली-110054 ई-मेल: cstifin@itl.com, www.itlfinlease.com फोन नं: 011-2782981-84, फैक्स: 011-2782985					
30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही/छमाही के लिए अलेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सार					
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 30.09.2022	छमाही समाप्त 30.09.2021	सर्व समाप्त 31.03.2022	सर्व समाप्त 31.03.2021
1	प्रचालनों से कुल आय	42.75	4.56	61.24	73.63
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पूर्व)	29.43	-8.47	29.13	-9.32
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	22.77	-8.47	29.13	-9.32
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात)	22.77	-8.42	22.63	-9.22
5	अवधि के लिए कुल समाप्त आय (अवधि (कर पश्चात) के लिए लाभ/(हानि) और अन्य समाप्त आय (कर पश्चात) शामिल)	22.77	-8.42	22.63	-9.22
6	इक्विटी शेयर पूंजी	480.81	480.81	480.81	480.81
7	आरक्षित निधि (पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षण तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	455.62			432.99
8	प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक) (बालू और बंध प्रचालनों के लिए) (रु.) मूल (रु.) तरल	0.47	-0.18	0.47	-0.19
		0.47	-0.18	0.47	-0.19

नोट:

1. उक्त सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आधारकारी) विनियमों, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.mse.in) और कंपनी की वेबसाइट (www.itlfinlease.com) पर उपलब्ध है।

2. 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 14.11.2022 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए  
आईटीएल फिनलीज एंड सिक्यूरिटीज लिमिटेड  
हस्ता./-  
बी.एन. गुप्ता  
(निदेशक)  
स्थान : दिल्ली  
दिनांक : 14.11.2022 डीआईएन: 00143031

**आंग सूचना**

एडलवेज एंटरप्राइज रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड  
सिंहवाड़ा (L67100MH2007PLC174759)  
रिटेल सेंट्रल एव प्रो. कार्यालय: एडलवेज हाउस, ऑफिस सी.एस.टी. रोड, करौली, मुंबई-400098

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विनियमों 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिणामों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत

अधोस्तहरी के इच्छापूर्वक एंटरप्राइज रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एडलवेज) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिणामों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विनियमों 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रकट शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एक मांग सूचना निम्न की थी, जिसमें निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत उक्त मांग सूचना, जिसका उल्लेख नीचे भी किया गया है, में अंकित शर्तों के अंतर्गत प्रकट करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतद्वारा उक्त मांग सूचना को एक बार पुनः सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकटन से 60 दिनों के अंदर, उक्त मांग सूचना(ओं) द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों/आवश्यों को पूरा करेंगे, जो कि, उक्त मांग सूचना के अंतर्गत प्रकट करने, महा इच्छापूर्वक शर्तों का निष्पत्ति हित(ियों) के अंतर्गत के भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की शर्तों के अंतर्गत उक्त मांग सूचना में विस्तृत/प्रकट मांगी ब्याज के साथ इच्छापूर्वक भुगतान करें। उक्त के विना प्रतिभूतिकरण की प्रतिभूति के रूप में उक्त मांग सूचना(ओं) द्वारा इच्छापूर्वक के पास अथवा निम्नलिखित परिणामों को बंधकबद्ध किया गया है।

**PUBLIC NOTICE**

Subject: Transfer/ Mutation of ownership in respect of Flat bearing no. S-206 Sispal Vihar, Awho, Sector 49 Gurgaon-122001, Haryana, consequently upon the death of Mrs. Saroj Bala Sahrawat W/o Late Lt. Col. Balbir Singh Sahrawat.

Mrs. Saroj Bala Sahrawat W/o Late Lt. Col. Balbir Singh Sahrawat who was the owner as per records of the subject cited property has died on 9 TH JUNE 2021 and has registered Will dated 27 Th December 2011. Mrs. Aditi Sahrawat (Daughter in law), W/O Mr. Dalbir Singh Sahrawat, R/O Flat no 6A, Block GH6, Orchid Gardens, Suncity, Sector 54, Gurgaon Haryana 122001, by virtue of registered Will dated 27 Th Dec 2011 intends to apply for the transfer/ mutation of the said property in her favour being the legal heir and request for transfer/ mutation in the name of Aditi Sahrawat.

If any person is having any objection against the transfer of the said flat, he/she can submit objections in writing to Office of Municipal Corporation Of Gurgaon (MCG) along with supporting documents within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the Office of MCG may accord permission to transfer of the said property as per MCG policy and may not entertain subsequent claim, if any.

Place Gurgaon. Sd/-  
Date 16/11/2022. Aditi Sahrawat

**पेगासस एंटरप्राइज रिकॉन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड**

55-56, एडी मंजिल, प्रो. एम. हाउस, रिटेल सेंट्रल, मुंबई-400 021, दूरभाष: 99-226188470

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]  
कच्चा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि आरबीएल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत कर्जदार/सह-कर्जदार मैसर्स शिवा इंडस्ट्रीज (कर्जदार), श्री राजीव अग्रवाल पुत्र श्री सतीश कुमार अग्रवाल (सह-कर्जदार), श्री सतीश अग्रवाल पुत्र श्री वासुदेव (सह-कर्जदार) तथा श्रीमती गिरी अग्रवाल पुत्री श्री छोटेलाल गुप्ता (सह-कर्जदार), सभी सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता से सूचना में उल्लिखित 10.09.2021 तक राशि रु. 86,32,498.51/- (रुपये छिपती लाख बत्तीस हजार चार सौ अठ्ठावन एवम् इक्यानव पैसे मात्र) तथा 11.09.2021 से भावी ब्याज, लागत, प्रभार और उस पर ब्याज का उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना दिनांक 01/10/2021 जारी की थी। सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एसाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 31.03.2021 के माध्यम से आरबीएल बैंक लिमिटेड द्वारा पेगासस ग्रुप यटी-नाइन ट्रस्ट 1 (पेगासस) के लिए ट्रस्टी के रूप में इसकी क्षमता में कार्यरत पेगासस एंटेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ उक्त कर्जदार का बकाया असाइन कर दिया गया था। सरफेसी अधिनियम की धारा 5 के तहत, पीएआरपीएल आरबीएल के स्थान पर आ गया और कर्जदारों द्वारा ग्रहण की गयी वित्तीय सुविधाओं के परिपेक्ष्य में अंतर्निहित प्रतिभूति हित, गारंटी, प्लेज सहित वित्तीय आस्तियों के समन्वय में समस्त अधिकार, स्वायत्त तथा हित पीएआरपीएल के पास आ गये और पीएआरपीएल प्रतिभूति लेनदार के रूप में इसके अधिकारों का उपयोग करता है। राशि के पुनर्भुगतान में विफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोस्तहरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रकट शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 11.11.2022 को कच्चा कर लिया है।

प्रतिभूति आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिपेक्ष्य में कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा संपत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 10/09/2021 तक राशि रु. 86,32,498.51/- (रुपये छिपती लाख बत्तीस हजार चार सौ अठ्ठावन एवम् इक्यानव पैसे मात्र) तथा 11.09.2021 से भावी ब्याज, लागत, प्रभार और उस पर ब्याज के लिए पेगासस के प्रभार का विषय होगा।

अचल संपत्ति का विवरण  
खसरा नं. 187/1, मौजा डेहराखास, परगना सेंट्रल दून, देहरादून पर स्थित भूमि तथा भवन का समस्त भाग, माता 212 वन मीटर, श्री सतीश कुमार अग्रवाल के स्वायत्त में, विक्री विवेक सं. 3243 दिनांक 21.07.1994 के माध्यम से पंजीकृत, सीमार्च: पूर्व: 35 फीट रोड, पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति, उदर: नात, दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति।

हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी  
पेगासस एंटेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.  
स्थान : देहरादून (पेगासस ग्रुप यटी-नाइन ट्रस्ट 1 के ट्रस्टी)

To book your copy, SMS reaches to 57575 or email us at order@bsmail.in

Business Standard  
Insight Out

YES BANK		यस बैंक लिमिटेड	
पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय: यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एम्प्लॉयमेंट बिल्डिंग, सांताक्रूज पूर्व, मुंबई 400055 सीआईएन: L65190MH2003PLC143249, ई-मेल: communication@yesebank.in, वेबसाइट: www.yesebank.in			
सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सूचना का प्रकाशन			
क्र. सं.	खाता सं.	क्रम सूचिका की विषय	क्र. सं. तिथि
1.	045684600000139	ओवरड्राफ्ट एवं कार्यालयी पूंजी मिग्राटी ब्याज	1. करिगरा पोर इंडस्ट्रीज (एडली) 13-08-2022
2.	456L4A0202430001		2. श्री संजय शर्मा (गारंटर एवं गिरवीदाता) 13-08-2022
3.	456L4A0213490001		3. श्रीमती शिखा जैन (गारंटर एवं गिरवीदाता) 27-08-2022

प्रतिभूत परिपंक्ति का विवरण: (1) आवासीय प्लेट नं. 201, द्वितीय तल, एक डी/टी, दीन बेह्रम, दो शौचालय/बाथरूम, किचन एवं बालकनी से संलग्न जिसका सार आरक्षित शेयरफैक है 1708 वर्गफिट लगभग, "हिमालय टॉवर" में खसरा नं. 537 में, मोहोडडीपु, बनारसी में स्थित, परगना लोनी, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)

(2) भूतल पर एक शॉप, प्रोवाइड नं. 688/6, जिसका शेयरफैक है 112 वर्गफिट (लगभग), सीलिंग लेवल तक, ऊपरी मंजिल के अधिकार के बिना, "अजय हाउस" के नाम से परिचित, संपत्ति का हिस्सा जो स्थितिसंपत्त नं. 688 में है, 1X में स्थित, चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006

उक्त क्रमों/सह-क्रमों/गारंटरों/गिरवीदाताओं (जब भी प्रयोज्य पड़े) को एतद्वारा कहा जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उक्त 60 दिनों की समाप्ति पर आम दंड उठाए जायेंगे। इसके अलावा, आपसे यह ध्यान में लाया जाता है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के अधीन, हमारे द्वारा खर्च किए गए सभी लागत, प्रभार एवं ब्याज के साथ हमारी बकाया राशि का भुगतान, अगर किसी या स्थानांतरण की निश्चित तिथि से पहले किसी भी समय कर दिया जाता है, तो हमारी ओर से प्रतिभूत संपत्ति का विक्रय या स्थानांतरण नहीं किया जाएगा एवं उक्त प्रतिभूत परिपंक्ति के स्थानांतरण या विक्री के लिए हमारी ओर से आम कोई बंधन नहीं उठाया जाएगा। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी कुंजु यस बैंक लिमिटेड स्थान : दिल्ली

**विनायक वाणिज्य लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय: प्लेट नं. 28, स्ट्रिट फ्लोर, देविका टावर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019  
वेबसाइट: www.vinayakvanija.com, दूरभाष: 011-4367 5500, ईमेल आईडी: vvanija1985@gmail.com  
CIN : L52110DL1985PLC020109

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अलेखा परीक्षित एकल वित्तीय परिणामों का सारांश (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 47(1)) (रकम लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त छमाही के लिए		समाप्त वर्ष 31.03.2022
	30.09.2022 (अलेखा परीक्षित)	30.09.2021 (अलेखा परीक्षित)	30.09.2022 (अलेखा परीक्षित)	30.09.2021 (अलेखा परीक्षित)	
परिचालन से राजस्व	2.95	3.08	3.29	6.03	12.89
अन्य आय	0.00	0.07	-	0.07	0.10
अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	(0.11)	(2.00)	1.26	(2.10)	2.81
कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(0.11)	(2.00)	1.26	(2.10)	2.21
करोपरांत अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(0.11)	(2.00)	1.26	(2.10)	1.66
अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय (अवधि (करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) के लिए लाभ/(हानि) शामिल)	(0.11)	(2.00)	1.26	(2.10)	1.66
इक्विटी शेयर पूंजी	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60
आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षण निधि सहित) जैसा कि पूर्ववर्ती वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र में दर्शाया गया है	-	-	-	-	-
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/- प्रत्येक) (जारी एवं बंध परिचालन के लिए)	(0.01)	(0.20)	0.13	(0.21)	0.28
1. बेसिक	(0.01)	(0.20)	0.13	(0.21)	0.28
2. डाइल्यूट	(0.01)	(0.20)	0.13	(0.21)	0.28

टिप्पणी: कर उल्लिखित विवरण सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आधारकारी) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में पेश दायर छमाही के विस्तृत वित्तीय परिणामों का सारांश है। छमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.in) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.vinayakvanija.com) पर उपलब्ध है।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी कुंजु यस बैंक लिमिटेड  
स्थान : दिल्ली  
दिनांक : 14.11.2022 डीआईएन: 09725509

**SIMBHAOLI SUGARS LIMITED**  
(Formerly known as 'Simbhaoli Spirits Limited')  
Regd. Office : Simbhaoli Dist. Hapur (U.P.) - 245207  
CIN - L15122UP2011PLC044210  
E-mail: info@simbhaolisugars.com Website: www.simbhaolisugars.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL						
---	--	--	--	--	--	--